

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4—मार्च 10, 2017 (फाल्गुन 13, 1938)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4—MARCH 10, 2017 (PHALGUNA 13, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 फरवरी 2017

सं. ए-19/जी-ए/129—डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 14-21/2011-एसपीजी दिनांक 23.12.2016 एवं पत्र दिनांक 30.01.2016 के अनुसरण में, और आदेश सं. ए-19013/10/2014-स्था.1 दिनांक 22.11.2016 के जरिए, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से कार्यमुक्त होने के परिणामस्वरूप, डॉ. कुशल कुमार पाठक (भारतीय डाक सेवा-2000) को एतद्वारा आयोग में, वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (रु 118500-214100) में द्विपक्षीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रतिनियुक्ति आधार पर 27.12.2016 (पूर्वाहन) से दो वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. डॉ. कुशल कुमार पाठक के वेतन एवं भत्ते कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II), दिनांक 17.06.2010, समय-समय पर यथा-संशोधित, की शर्तों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

बी.सी. पात्रा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

सं. के.13015/01/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीशों न्यायमूर्ति सर्व श्री (1) आशिस कुमार चक्रवर्ती (2) मलय मरुत बनर्जी (3) मो. मूमताज़ खां (4) शंकर आचार्य (5) मीर दारा शेको (6) देवी प्रसाद दे (7) सुश्री आशा अरोड़ा (8) सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और (9) शिवाकांत प्रसाद, को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13015/03/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अमिताभ चटर्जी को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 अक्टूबर 2016

सं. के.13025/01/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री राजीव कुमार दुबे (2) श्रीमती अंजुली पालो (3) श्री विरेन्द्र सिंह और (4) श्री सुनील कुमार अवस्थी को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2016

सं. के.13025/02/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री विजय कुमार शुक्ला (2) श्री गुरपाल सिंह आहलूवालिया और (3) श्री सुबोध अभ्यंकर को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 अक्टूबर 2016

सं. के.11019/01/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र सिंह की सेवानिवृत्ति के पश्चात, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 से झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार महान्ति को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 अक्टूबर 2016

सं. के.11019/01/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री इकबाल अहमद अन्सारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात, दिनांक 29 अक्टूबर,

2016 से पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हेमन्त गुप्ता को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 नवंबर 2016

सं. के.13014/01/2016-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंबई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री (1) कालिदास लक्ष्मणराव वडणे (2) न्यायमूर्ति कुमारी इंदिरा कन्हैयालाल जैन और (3) डॉ (श्रीमती) शालीनी शशांक फणसकर-जोशी को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 नवंबर 2016

सं. के.13017/03/2014-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अनिल कुमार चावला को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13017/04/2016-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री विनोद गोयल (2) श्री चन्द्र शेखर (3) श्रीमती अनु मल्होत्रा और (4) श्री योगेश खन्ना को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 नवंबर 2016

सं. के.13018/01/2016-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्व श्री (1) अचिंत्य मल्ल बूजर बरुआ (2) कल्याण राय सुराणा (3) प्रशंत कुमार ढेका (4) नेलसन साइलो और (5) अजित बरठाकूर को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गोहाटी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13023/01/2016-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व श्री (1) केम्पय्या सोमशेखर (2) श्रीमती कोट्टुवा सोमप्पा मुदगल (3) श्रीनिवास हरीश कुमार (4) जॉन मैकल कुन्हा और (5) बसवराज अंदानागौड़ा पाटील को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13026/03/2016-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री आर.एम.टी. टीका रामन (2) श्री ना.सतीश कुमार और (3) श्री एन. शेषसायी को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13028/01/2013-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बिरेन्द्र कुमार को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 12 नवंबर 2016

सं. के.13012/01/2016-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्व श्री (1) दया शंकर त्रिपाठी (2) शिव कुमार सिंह । (3) विरेन्द्र कुमार ।। (4) शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल (5) संजय हरकौली (6) कृष्ण प्रताप सिंह (7) श्रीमती रेखा दीक्षित और (8) सत्य नारायण अग्निहोत्री को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, गोहाटी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

सर्व श्री दया शंकर त्रिपाठी, विरेन्द्र कुमार ।।, संजय हरकौली, कृष्ण प्रताप सिंह और श्रीमती रेखा दीक्षित की नियुक्ति अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। तथापि, सर्व श्री शिव कुमार सिंह ।, शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल और सत्य नारायण अग्निहोत्री की नियुक्ति की अवधि, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से क्रमशः 16 जनवरी, 2018, 09 अप्रैल, 2018 और 29 अप्रैल, 2018 तक होगी।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.13012/02/2015-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्व श्री (1) राजुल भार्गव (2) सिद्धार्थ वर्मा और (3) श्रीमती संगीता चन्द्रा को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 14 नवंबर 2016

सं. के.13030/02/2015-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व श्री (1) संजीव प्रकाश शर्मा (2) डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी (3) दिनेश मेहता और (4) विनीत कुमार माथुर को, वरिष्ठता के क्रम में, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 नवंबर 2016

सं. के. 11019/01(15)/2016-यू.एस.।—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती निशिता निर्मल म्हात्रे को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य

न्यायाधीश श्री गिरीश चंद्र गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, 1 दिसंबर, 2016 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 8 दिसंबर 2016

सं. के. 13028/03/2016-यू.एस.II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री अरविन्द श्रीवास्तव (2) श्री विनोद कुमार सिन्हा (3) श्री संजय प्रिय (4) श्री अरुण कुमार और (5) श्री संजय कुमार को वरिष्ठता के क्रम में पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

श्री अरविन्द श्रीवास्तव, श्री विनोद कुमार सिन्हा, श्री संजय प्रिय और श्री संजय कुमार की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। तथापि, श्री अरुण कुमार की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 21 अगस्त, 2018 तक होगी।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के. 13029/02/2016-यू.एस.II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरमिन्दर सिंह मदान को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 दिसंबर 2016

सं. के. 13023/03/2016-यू.एस.I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गुहनाथन नरेंद्र को 2 जनवरी, 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के. 13023/03/2016- यू.एस.I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायमूर्ति श्रीमती शिवण्णा सुजाता, (ii) न्यायमूर्ति श्री बैरारेड्डी वीरप्पा और (iii) न्यायमूर्ति श्री प्रतिनिधि श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के. 13029/03/2016- यू.एस.II राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रमेन्द्र जैन को 20 अप्रैल, 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के. 13029/03/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पवनकुमार भीमप्पा बजंजि को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 दिसंबर 2016

सं. के. 13018/02/2016- यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायमूर्ति श्री मनोजित भुइयाँ, (ii) न्यायमूर्ति श्री माईकल जोथनखूमा और (iii) न्यायमूर्ति श्री सुमन श्याम को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के. 13018/02/2016- यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री परान कुमार फुकन को 7 जनवरी, 2017 से 28 अक्टूबर, 2017 तक गौहाटी उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश और (ii) श्रीमति रुमी कुमारी फुकन को 7 जनवरी, 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए गौहाटी उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 फरवरी 2017

सं. 14034/7/2016-राभा(प्रशि)—राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री ज्ञानचंद्र प्रसाद, हिंदी प्राध्यापक को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक (भाषा) के पद पर वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-10 (पूर्व संशोधित पीबी-3, ₹ 15600-39100+5400 ₹ ग्रेड वेतन) में, पदोन्नति पर दिनांक 12 दिसंबर 2016 (पूर्वाहन) से नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार, उपसचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 2016

सं. 20/एस/668-प्रशासन-I.—इस विभाग के दिनांक 02.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/2/2015-सीएस.॥ (ए) के तहत श्री राजेन्द्र सिंह का सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में प्रोन्नति होने तथा रक्षा मंत्रालय से इस विभाग में स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, उन्हें प्रधान निजी सचिव को वेतन बैंड - 3: 15600-39100 रु., ग्रेड वेतन 7600 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में दिनांक 05.05.2016 के अपराहन से नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में (चयन सूची-2015 भाग-I) नियुक्त करते हैं।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2017

सं.-14012/01/2015-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके समक्ष दिखाए गए तिथि से स्थायी करते हैं

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायी होने की तिथि
1	अजीत	एजीएमयूटी	09.03.2016
2	पार्थ गुप्ता	हरियाणा	02.09.2015
3	हेमंत कुमार	नागालैंड	03.09.2015
4	निधि	पश्चिम बंगाल	02.09.2015

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2017

सं0 01/2017 [ए-35014/2/2015-एसओ (सीए)]—राष्ट्रपति, मुख्य आयकर आयुक्त के कार्यालय कोलकाता-3, कोलकाता में कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड-I श्री मृदुल सिंघा को तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक के कार्यालय, कोलकाता में 28 दिसंबर, 2016 के पूर्वाहन से 27 दिसंबर, 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. भौमिक, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

सं.ए-12023/3/2012-स्था.।:—डॉ. शाहिद रसूल, पे मैट्रिक्स [संशोधनपूर्व पे बैंड पीबी-2 (9300-34800 रु.)+ग्रेड पे 4600/-रु.] के लेवल 7 में परीक्षक-I, रक्षा मंत्रालय, जो वर्तमान में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 [संशोधन पूर्व पे बैंड पीबी-3 (15600-39100 रु.)+ग्रेड पे 5400/-रु.] में अनुसंधान अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे हैं, को 25 जुलाई, 2016 (पूर्वाहन) से उसी पद पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में स्थायी आधार पर समाविष्ट किया जाता है।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2017

सं.ए-46011/1/2016-स्था—राष्ट्रपति, श्री अजित बी. चव्हाण, निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 16.01.2017 (पूर्वाहन) से सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई के पद पर पे बैंड-4 के वेतनमान 37400 - 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु. में पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 फरवरी 2017

सं० ए-12025/01/2016 -एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, श्री अतिश कुमार को, 15600-39100/- रुपये के वेतनमान-3 और 5400/- (पूर्व संशोधित) रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 23.12.2016 (पूर्वाहन) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में वैज्ञानिक एस.बी. (मैकेनिकल) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

डी.के.सोनकर, उप निदेशक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 फरवरी 2017

सं. ए. 12025/01/2015-सीएचएस-IV—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति महोदय, डॉ. निधि चोपड़ा को दिनांक 22 जून, 2015 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-III (बाल रोग) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2017

सं ए.12025/170/2014-सीएचएस.III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रणय कुमार वर्मा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-III [(तत्कालीन विशेषज्ञ ग्रेड-II (जूनियर स्केल)] के पद पर 01.10.2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक, परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 फरवरी 2017

सं. ए. 12025/73/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अनुराधा को दिनांक 07.07.2014 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में सूक्ष्म जीव विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/86/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. बिंदुसार कलिता दिनांक 05.09.2014 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शरीर रचना की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/99/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. भाग्य नारायण पंडित को दिनांक 25.08.2014 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हृदय रोग विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/152/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. विकास यादव दिनांक 28.10.2015 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विकिरणी आयुर्विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 फरवरी 2017

सं. ए. 12025/38/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय डॉ. सतीश कुमार मीणा दिनांक 30.07.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के बाल चिकित्सा विज्ञान उप-संवर्ग में विकिरणी आयुर्विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2017

सं. ए. 12025/52/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हिमांशु को दिनांक 10.05.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में वृक्क रचना विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2017

सं. ए. 12026/2/2015-स्था० III—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय, श्री इमरान खान को सहायक वास्तुकार, समूह 'ख' राजपत्रित पद, वेतन मैट्रिक्स के पे लेवल - 7 (रु० 44900-142400 (पर दिनांक 03.02.2017 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियुक्त करते हैं।

अवधेश कुमार सिंह, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2017

सं. 32011/05/2016 ई-II—राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर श्री बी. वी. नागेश्वर राव एवं श्री सुभाष चंद्र राम दोनों इस विभाग के सहायक आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) को 12/1/2017 पूर्वाह्न से नियमित आधार पर पदोन्नति के पश्चात पे-मैट्रिक्स [पूर्व-संशोधित वेतनमान 15600-39100 रूपए (पे-बैंड-3) + ग्रेड वेतन 7600 रूपए] के स्तर 12 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में उप-आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, गैर-मंत्रालय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुनील कुमार स्वर्णकार, अवर सचिव

दिनांक 9 फरवरी 2017

सं. 19011/595/2010-ई-II—राष्ट्रपति डॉ. वीरेंद्र सिंह, नियमित सीटीओ, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर के 7 वें वर्ष अर्थात् 21/09/2016 से 20/09/2017 के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में पे मैट्रिक्स पूर्व - संशोधित वेतनमान

37400-67000 (पे बैंड - 4) + 8700 ग्रेड वेतन के स्तर 13 में अपर आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के पद की प्रतिनियुक्त अवधि को बढ़ाते हैं।

सुनील कुमार स्वर्णकार, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2017

फा.सं. 11036/02/2017-पीसी—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) तथा धारा 19(1) के संबंध में दिनांक 23.06.2016 तथा 6 दिसंबर, 2016 के मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11036/13/2009-पीसीएंडवी के अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दिए गए विशेष विषय-वस्तु के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा अपीलीय प्राधिकारी (एए) के रूप में पदनामित किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता/दूरभाष	विषय	अपीलीय प्राधिकारी
1.	श्रीमती एच.टी. हिलेरी	वैज्ञानिक डी (एनआईसी)	कमरा सं. 217, जी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष नं. 23387970	एनआईसी संबंधी मामले	श्री एच.एस. होरा तकनीशियन निदेशक (एनआईसी)
2.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (एससीए)	कमरा सं. 217एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष नं. 23073708	1. टीएसपी को एससीए 2. अंतर-मंत्रालयीय टीएसपी समन्वय (वीकेवाई सहित) 3. स्वास्थ्य और आयुष संबंधी मामले	श्री राजीव प्रकाश निदेशक
3.	श्री एम.के. झा	अवर सचिव (आईएफडी)	कमरा सं. 217एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष नं. 23387007	1. आईएफडी 2. बजट	सुश्री निवेदिता निदेशक
4.	श्री डी. एन. मंडल	उप निदेशक (सीएलएम)	कमरा सं. 219, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23383461	1. अजजा पर अत्याचारों संबंधी सभी मामले और विनिमय 2. विधायी और संवैधानिक मामले 3. अजजा का अनुसूचीकरण/पुनर्अनुसूचीकरण	श्री बी. सस्मल निदेशक
5.	श्री के. वी. रामाचन्द्रन	अनुभाग अधिकारी (स्था.)	कमरा सं. 400 वी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23387187	1. प्रशासन और स्थापना 2. सतर्कता 3. बहु-पक्षीय निकाय (यूएनडीपी, विश्व बैंक आदि)	श्री असगर अली अवर सचिव

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता/दूरभाष	विषय	अपीलीय प्राधिकारी
6.	श्री राजीव कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (एनजीओ)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23386952	एनजीओ संबंधी सभी मामले पीवीटीजी संबंधी निजी सार्वजनिक भागीदारी	सुश्री रीमा शर्मा अवर सचिव
7.	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (पीसी)	कमरा सं. 217, एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23381903	संसद मामलों का समन्वय	श्री असगर अली, अवर सचिव
8.	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (सामान्य अनुभाग)	कमरा सं. 218, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23387469	1 सामान्य प्रशासन 2. आईटी संबंधी मामले- वेबसाइट ई-आफिस, आईटी संबंधी खरीद आदि	श्री असगर अली, अवर सचिव
9	श्री शैल कुमार	अनुभाग अधिकारी (एफआरए)	कमरा सं. 216, जे, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115	1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) संबंधी सभी मामले	श्री उत्तम कुमार कर अवर सचिव
10	श्री प्रवीण पंडित	अनुभाग अधिकारी (अनुदान)	कमरा सं. 217, एफ डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23381962	1. अनुच्छेद 275(1) अनुदान 2. कृषि, बागवानी एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्र के मामले	श्री साहू अवर सचिव
11	श्रीमती सुनंदा शर्मा	अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23070508	छात्रवृत्ति योजनाएं	श्री चंदशेखर अवर सचिव
12	सुश्री श्वेता गौतम	सहायक अनुभाग अधिकारी (शिक्षा)	कमरा सं. 412, बी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23070508	शिक्षा (छात्रवृत्ति के अलावा)	श्री राजीव प्रकाश निदेशक
13	श्री सुरिन्दर पाल शर्मा	अनुभाग अधिकारी (एमएफपी/न्यायिक)	कमरा सं. 217, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23383461	1. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) 2. लघु वन उत्पाद (एमएफपी) 3. न्यायिक कार्रवाई 4. निगरानी और समन्वय 5. भूमि एवं पुर्नवास व पुनर्स्थापना (आर एंड आर) मामले	श्री आर. चौधरी उप-सचिव

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता/दूरभाष	विषय	अपीलीय प्राधिकारी
14	श्री धीरज चन्द्र रे	अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी)	कमरा सं. 239, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष नं. 26182153	1. जनजातीय सांख्यिकी 2. एमओटीए वार्षिक रिपोर्ट 3. अनुसूचित क्षेत्र, आईटीडीपी/आईटीडीपी, एमएडीए भाड़ा क्लस्टर 4. जनजातीय विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन 5. महिला और बाल	श्रीमती सी.एच. हनी निदेशक
15	सुश्री रामदिन एल. रेन्थली	सहा. निदेशक (पॉलिसी विश्लेषण)	कमरा सं. 61, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष नं. 26182823	1. राष्ट्रीय जनजातीय पॉलिसी 2. जनजातीय अनुसंधान (टीआरआई) 3. जनजातीय विकास के लिए उच्च स्तर एवं अन्य समिति 4. संबंधी मामले नीति आयोग वित्त आयोग .	श्री वी. अशोक संयुक्त निदेशक
16	श्री नरेन्द्र कुमार	अनुभाग अधिकारी (आय सृजनकारी योजनाएं)	कमरा सं. 239, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष नं. 26182153	1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) 2. सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय संबंधी मामले 3. कौशल विकास एवं उद्यमिता संबंधी मामले	श्री चंदरशेखर अवर सचिव
17	श्री रमेश कुमार वर्मा	अनुसंधान अधिकारी (एनसीएसटी/आर एंडएम)	कमरा सं. 239, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष नं. 26182153	1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) (प्रशा. एवं रिपोर्ट सहित) 2. राज्यपाल रिपोर्ट एवं सम्मेलन 3. जनजातीय परामर्शदात्री समिति (टीएसी) 4. अनुसंधान एवं मीडिया 5. जनजातीय कार्निवाल	श्री एस. दास निदेशक
18	श्री धर्म बीर कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (शिकायत)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष नं. 26182428	1. पीआईआई/पीईएसए 2. लोक शिकायत 3. आरटीआई प्राधिकारी 4. परिणाम मसौदे का प्रलेखन	श्री गोपाल साधवाणी उप सचिव

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता/दूरभाष	विषय	अपीलीय प्राधिकारी
				(आरएफडी)/नागरिक चार्टर 5. जनजातीय विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	

असगर अली, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2017

सं. ई(ओ)III-2016/आरएन/12—श्री राजेश प्रसाद, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (जन्म तिथि: 22/09/1964, डीआईटीएस: 22/01/1990) का रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 30/11/2016 (अपराहन) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर. के वर्मा, सचिव

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi 110001, the 2nd February 2017

No. A-19/G-A/129—In pursuance of Department of Posts, M/o Communication and Information Technology's OM No 14-21/2011-SPG dated 23.12.2016 & letter dated 30.01.2016, and consequent upon having been relieved from the Department of Rural Development (M/o Rural Development), vide Order No. A-19013/10/2014-Estt.1 dated 22.11.2016, Dr. Kushal Kumar Pathak, (IPoS-2000), is hereby appointed as Director in the Commission, in Level 13 [Rs.118500 – 214100] of the Pay Matrix, w.e.f. 27.12.2016(F/N), on deputation basis through bilateral deputation, for a period of two years or until further orders, whichever is earlier.

2. The pay and allowances of Dr. Kushal Kumar Pathak, shall be regulated in terms of the DoPT's OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II), dated 17.06.2010, as amended from time to time.

B. C. PATRA, Under Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 3rd October 2016

No. K.13015/01/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (i) Ashis Kumar Chakraborty, (ii) Malay Marut Banerjee, (iii) Md. Mumtaz Khan, (iv) Sankar Acharyya, (v) Mir Dara Sheko, (vi) Debi Prosad Dey, (vii) Miss Asha Arora, (viii) Siddhartha Chattopadhyay, and (ix) Shivakant Prasad, Additional Judges of the Calcutta High Court, to be Judges of the Calcutta High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13015/03/2016-US.II —In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Amitabha Chatterjee, to be an Additional Judge of the Calcutta High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 4th October 2016

No. K.13025/01/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Rajeev Kumar Dubey, (ii) Smt. Anjuli Palo, (iii) Shri Virender Singh and (iv) Shri Sunil Kumar Awasthi, to be Additional Judges of the Madhya Pradesh High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 5th October 2016

No. K.13025/02/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Vijay Kumar Shukla, (ii) Shri Gurpal Singh Ahluwalia and (iii) Shri Subodh Abhyankar, to be Additional Judges of the Madhya Pradesh High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 6th October 2016

No. K-11019/01/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Pradip Kumar Mohanty, senior-most Judge of Jharkhand High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 07th October, 2016 consequent upon the retirement of Shri Justice Virender Singh, Chief Justice, Jharkhand High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 24th October 2016

No. K-11019/01/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Hemant Gupta, senior-most Judge of Patna High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 29th October, 2016 consequent upon the retirement of Shri Justice Iqbal Ahmed Ansari, Chief Justice, Patna High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 3rd November 2016

No.K.13014/01/2016-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Kalidas Laxmanrao Wadane, (ii) Kumari Justice Indira Kanahaiyalal Jain, and (iii) Dr. (Smt.) Justice Shalini Shashank Phansalkar-Joshi, Additional Judges of the Bombay High Court, to be Judges of the Bombay High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 5th November 2016

No. K.13017/03/2014-US.I— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Chawla, to be a Judge of the Delhi High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13017/04/2016-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Vinod Goel, (ii) Shri Chander Shekhar, (iii) Smt. Anu Malhotra, and (iv) Shri Yogesh Khanna, to be Judges of the Delhi High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 10th November 2016

No. K.13018/01/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Achintya Malla Bujor Barua, (ii) Kalyan Rai Surana, (iii) Prasanta Kumar Deka, (iv) Nelson Sailo, and (v) Ajit Borthakur, to be Additional Judges of the Gauhati High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13023/01/2016-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Kempaiah Somashekar, (ii) Smt. Kotravva Somappa Mudagal, (iii) Sreenivas Harish Kumar, (iv) John Michael Cunha, and (v) Basavaraj Andanagouda Patil, to be Additional Judges of the Karnataka High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13026/03/2016-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri R.M.T. Teeka Raman, (ii) Shri N. Sathish Kumar, and (iii) Shri N. Seshasayee, to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13028/01/2013-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Birendra Kumar, to be an Additional Judge of the Patna High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 12th November 2016

No. K-13012/01/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Daya Shankar Tripathi, (ii) Sheo Kumar Singh I, (iii) Virendra Kumar II, (iv) Shailendra Kumar Agrawal, (v) Sanjay Harkauli, (vi) Krishna Pratap Singh, (vii) Smt. Rekha Dikshit, and (viii) Satya Narain Agnihotri, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority.

The appointment of S/Shri Daya Shankar Tripathi, Virendra Kumar II, Sanjay Harkauli, Krishna Pratap Singh, and Smt. Rekha Dikshit, would be for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices. However, the period of appointment in respect of S/Shri Sheo Kumar Singh I, Shailendra Kumar Agrawal, and Satya Narain Agnihotri, is with effect from the date they assume charge of their offices till 16th January, 2018, 09th April, 2018 and 29th April, 2018 respectively.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K-13012/02/2015-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Rajul Bhargava, (ii) Siddhartha Varma, and (iii) Smt. Sangeeta Chandra, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 14th November 2016

No. K-13030/02/2015-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Sanjeev Prakash Sharma, (ii) Dr. Pushpendra Singh Bhati, (iii) Dinesh Mehta, and (iv) Vinit Kumar Mathur, to be Additional Judges of the Rajasthan High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 24th November 2016

No. K-11019/01(15)/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shrimati Justice Nishita Nirmal Mhatre, senior-most Judge of Calcutta High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 01st December, 2016 consequent upon the retirement of Shri Justice Girish Chandra Gupta, Chief Justice, Calcutta High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 8th December 2016

No. K.13028/03/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Arvind Srivastava, (ii) Vinod Kumar Sinha, (iii) Sanjay Priya, (iv) Arun Kumar and (v) Sanjay Kumar, to be Additional Judges of the Patna High Court, in that order of seniority.

The appointment of S/Shri Arvind Srivastava, Vinod Kumar Sinha, Sanjay Priya, and Sanjay Kumar, would be for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices. However, the period of appointment in respect of Shri Arun Kumar is with effect from the date he assumes charge of his office till 21st August, 2018.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13029/02/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Harminder Singh Madaan, to be an Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 28th December 2016

No. K.13023/03/2016-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Guhanathan Narendar, to be an Additional Judge of the Karnataka High Court, for a period of one year with effect from 02nd January, 2017.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13023/03/2016-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Smt. Justice Shivanna Sujatha, (ii) Shri Justice Byrareddy Veerappa, and (iii) Shri Justice Pratinidhi Srinivasacharya Dinesh Kumar, Additional Judges of the Karnataka High Court, to be Judges of the Karnataka High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13029/03/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Ramendra Jain, to be an Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court, for a period of one year with effect from 20th April, 2017.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13029/03/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Pavankumar Bhimappa Bajanthri, Additional Judge of the Karnataka High Court, to be a Judge of the Karnataka High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 30th December 2016

No. K.13018/02/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Manojit Bhuyan, (ii) Shri Justice Michael Zothankhuma, and (iii) Shri Justice Suman Shyam, Additional Judges of the Gauhati High Court, to be Judges of the Gauhati High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13018/02/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Paran Kumar Phukan, to be an Additional Judge of the Gauhati High Court with effect from 07th January, 2017 till 28th October, 2017, and (ii) Smt. Rumi Kumari Phukan, to be an Additional Judge of the Gauhati High Court, for a period of one year with effect from 07th January, 2017.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 17th February 2017

No. 14034/7/2016-OL(Trg)—The President, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to appoint SHRI GYAN CHANDRA PRASAD, Hindi Pradhyapak in Central Hindi Training Institute/Hindi

Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, as Assistant Director (Language) in the Pay Matrix Level-10 (Pre-Revised Pay Scale of PB-3, ₹15600-39100 + Grade Pay 5400 ₹) on promotion, with effect from 12th December, 2016 (F.N.)

VIJAY KUMAR, Deputy Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 10th May 2016

No. 20/S/668-Ad.I—Consequent upon his promotion to the grade of Senior Principal Private Secretary of the CSSS vide this Department's O.M. No.2/2/2015-CS.II(A) dated 02.05.2016 and subsequent transfer from Ministry of Defence to this Department, the President is pleased to appoint Shri Rajender Singh, Principal Private Secretary as Senior Principal Private Secretary on regular basis [Select List- 2015(Part)] in the Pay Band 3: Rs 15600-39100, Grade pay Rs. 7600, in the Department of Personnel & Training, with effect from the afternoon of 05.05.2016.

D.K. SENGUPTA, Under Secretary

New Delhi, the 6th February 2017

No.14012/01/2015 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service of 2013 batch in the Indian Administrative Service, with effect from date(s) shown against them:

S. NO.	Name of Officer(Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
1.	Ajit	AGMUT	09/03/2016
2.	Parth Gupta	Haryana	02/09/2015
3.	Hemant Kumar	Nagaland	03/09/2015
4.	Nidhi	West Bengal	02/09/2015

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 1st February 2017

No. 1/2017 [A-35014/2/2015-SO (CA)]—The President of India is pleased to appoint Shri Mridul Singha, Stenographer Grade-I, O/o CCIT: Kolkata-3, Kolkata, as Private Secretary (Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) in the office of Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985, Kolkata, on deputation basis for a period of three years with effect from forenoon of 28th December, 2016 till 27th December, 2019 or until further orders, whichever is earlier.

S. BHOWMICK, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 3rd October 2016

No. A-12023/3/2012-E.I.—Dr. Shahid Rasool, Examiner-I in level 7 of Pay Matrix [pre revised Pay Band PB-2 (Rs.9300-34800/-) plus grade pay Rs.4,600/-], Ministry of Defence, who is presently working as Research Officer in level 10 of Pay Matrix [pre revised Pay Band PB-3(Rs.15600-39100) plus Grade Pay Rs.5400/-] in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry on deputation basis is absorbed on permanent basis in Department of Industrial Policy and Promotion in same capacity w.e.f 25th July, 2016 (F/N).

DAYANIDHI JOSHI, Under Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 31st January 2017

No. A-46011/1/2016-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ajit B. Chavan, Director, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi as Secretary, Textiles Committee, Mumbai, in Pay Band-4 of Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.8700 w.e.f 16.01.2017 (F.N) on deputation basis for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi-110011, the 13th February 2017

No. A-12025/01/2016-NTH—The President is pleased to appoint Shri Atish Kumar to the post of Scientist SB (Mechanical) in the National Test House in the Pay Band- 3 of Rs.15600-39100 + Grade pay of Rs. 5400/- (pre-revised) on regular basis with effect from 23.12.2016(F/N).

D. K. SONKER, Deputy Director

New Delhi, the 14th February 2017

No. A-22020/1/2016-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Surender Chaudhary, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer of Lok Sabha Secretariat, to the post Assistant Private Secretary(APS) to the Minister of State (Consumer Affairs, Food and Public Distribution) in the Pay Band-3 of Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs.5400/- (pre-revised) with effect from the afternoon of 10th February, 2017 on co-terminus basis or till he ceases to function as Assistant Private Secretary(APS) to the Minister of State (Consumer Affairs, Food and Public Distribution) or till further orders, whichever is the earliest.

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 8th February 2017

No. A.12025/01/2015-CHS-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nidhi Chopra to the post of Specialist Grade-III (Paediatrics) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service w.e.f. the forenoon of 22nd June, 2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 10th February 2017

No. A.12025/170/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pranay Kumar Verma to the post of Public Health specialist Grade-III [erstwhile Specialist Grade II(Junior Scale)] in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 01.10.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 14th February 2017

No. A.12025/73/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anuradha to the post of Assistant Professor in the speciality of Microbiology, in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 07.07.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

No. A.12025/86/2014-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Bindusar Kalita to the post of Assistant Professor in the speciality of Anatomy in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, with effect from the forenoon of 05.09.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

No. A.12025/99/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bhagya Narayan Pandit to the post of Assistant Professor in the specialty of Cardiology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 25.08.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

No. A.12025/152/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vikas Yadav to the post of Assistant Professor in the speciality of Radiotherapy in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 28.10.2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 15th February 2017

No. A.12025/38/2014-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Satish Kumar Meena to the post of Assistant Professor in the speciality of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service with effect from the forenoon of 30.07.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

The 17th February 2017

No. A.12025/52/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Himanshu to the post of Assistant Professor in the speciality of Nephrology, in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 10.05.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secretary

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th February 2017

No. A.12026/2/2015- Estt.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Imran Khan to the post of Assistant Architect, a Group 'B' gazetted post in Pay Level- 7 (Rs. 44900-142400) of the Pay Matrix in the Department of Health and Family Welfare w.e.f. 03.02.2017(FN).

A. K. SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 27th January 2017

No.32011/05/2016.E-II—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri B.V. Nageswara Rao and Sh. Subhash Chandra Ram both Assistant Commissioners (NRM/RFS) of this Department, on the post of Deputy Commissioner (NRM/RFS) (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare in level 12 in the pay matrix [pre-revised pay scale of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7600/-] after promotion on regular basis w.e.f. 12/1/2017 (FN).

SUNIL KUMAR SWARNKAR, Under Secretary

The 9th February 2017

No. 19011/595/2010-E.II—The President is pleased to extend the deputation tenure of Dr. Virendra Singh, a regular CTO, Central Institute for Research on Buffaloes, ICAR on the post of Additional Commissioner (NRM/RFS) in level 13 of the Pay Matrix [pre-revised pay scale of Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8700/-] in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare for the 7th year i.e. from 21/09/2016 to 20/09/2017.

SUNIL KUMAR SWARNKAR, Under Secretary

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th January 2017

No.11036/02/2017-PC—In supersession of this Ministry's notifications No.11036/13/2009-PC&V dated 23rd June, 2016 and 6th December, 2016 in terms of section 5 (1) and section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Ministry of Tribal Affairs are hereby designated as Central Public Information Officers (CPIOs) and Appellate Authorities (AAs), in respect of the specific subject matters mentioned against their names:-

S. No.	Name of the Officer	Designation	Address/ Tel.	Subject Matter	Appellate Authority
1.	Smt. H.T. Hilri	Scientist D (NIC)	Room No. 217, G-Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel.No. 23387970	NIC related issues	Shri H.S.Hora Technical Director (NIC)
2.	Shri Nadeem Ahmad	Under Secretary (SCA)	Room No. 217F, D-Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel.No. 23073708	1. SCA to TSP 2. Inter- Ministerial TSP Coordination (incl. VKY) 3. Health and AYUSH issues	Shri Rajeev Prakash Director
3.	Shri M.K. Jha	Under Secretary (IFD)	Room No. 217F, D-Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel.No. 23387007	1. IFD 2. Budget	Ms. Nivedita Director
4.	Shri D.N. Mandal	Deputy Director (CLM)	Room No. 219, D-Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel. No. 23383461	1.All matters pertaining to atrocities on STs and Regulation 2. Legal and Constitutional matters 3. Scheduling /rescheduling of list of ST	Shri B. Sasmal Director
5.	Shri K.V. Ramachandran	Section Officer (Estt)	Room No. 400, B Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110115 Tel. No. 23387187	1. Administration & Establishment 2. Vigilance 3. Multilateral bodies (UNDP, World Bank etc.)	Shri Ashgar Ali Under Secretary
6.	Shri Rajiv Kumar Singh	Section Officer (NGO)	Room No. 416, B-Wing, Shastri Bhawan New Delhi- 110115 Tel. No. 23386952	1. All matters pertaining to NGO 2. Public Private Partnership related PVTGs	Ms. Reema Sharma Under Secretary
7.	Shri Santosh Kumar	Section Officer (PC)	Room No. 217F, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel. No. 23381903	Parliament matters Coordination	Shri Ashgar Ali Under Secretary

S. No.	Name of the Officer	Designation	Address/ Tel.	Subject Matter	Appellate Authority
8.	Shri Santosh Kumar	Section Officer (General Admn)	Room No. 218B, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 Tel. No. 23387469	1. General Administration 2. IT related issues – Website e-office, IT related Procurement etc	Shri Ashgar Ali Under Secretary
9	Shri Shail Kumar	Section Officer (FRA)	Room No. 216J, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi 110066	1. All matters pertaining to Forest Right Act, 2006 (FRA)	Shri Uttam Kumar Kar Under Secretary
10.	Shri Praveen Pandit	Section Officer (Grants)	Room No. 217F, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi – 110115 T.No.23381962	1. Article 275(1) Grants 2. Agriculture, Horticulture and other primary sector issues	Shri Sahoo Under Secretary
11.	Smt. Sunanda Sharma	Section Officer (Scholarship)	Room No.416, B Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110115 Tel. No. 23070508	Scholarship Schemes	Shri Chandrasekhar Under Secretary
12.	Ms. Shweta Gautam	Assistant Section Officer (Education)	Room No.412, B Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110115 Tel. No. 23070508	Education (other than Scholarship)	Shri Rajeev Prakash Director
13.	Shri Surinder Pal Sharma	Section Officer (MFP/ Judl)	Room No. 217, D Wing, Shastri Bhawan New Delhi-110115 Tel. No. 23383461	1. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd (TRIFED) 2. Minor Forest Produce (MFP) 3. Judicial Proceedings 4. Monitoring and coordination 5. Land and Rehabilitation & Resettlement (R&R) issues	Shri R. Choudhary Deputy Secretary
14.	Shri Dhiraj Chandra Ray	Research Officer (Stats)	Room No. 239, August Kranti Bhawan Bikaji Cama Place New Delhi-110066 Tel.No.26182153	1. Tribal Statistics 2. MOTA Annual Reports 3. Scheduled Areas – ITDP/ITDA, MADA, Cluster 4. Evaluation of Tribal Development Programmes 5. Women and Child issues	Smt. C.H. Honey Director
15.	Ms. Ramdin L. Renthlei	Asst. Director (Policy Analysis)	Room No. 61, August Kranti Bhawan Bhikaji Cama Place New Delhi- 110066 Tel No. 26182823	1. National Tribal Policy 2. Tribal Research Institutes (TRIs) 3. High level and other Committees for Tribal development 4. Matters relating to NITI Ayog, Finance Commission etc.	Shri V. Ashok Joint Director

S. No.	Name of the Officer	Designation	Address/ Tel.	Subject Matter	Appellate Authority
16.	Shri Narendra Kumar	Section Officer (Income Generating Schemes)	Room No. 239, August Kranti Bhawan Bikaji Cama Place New Delhi-110066 Tel.No.26182153	1. National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC) 2. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) issues 3. Skill Development and Entrepreneurship matters	Shri Chandrasekhar Under Secretary
17.	Shri Ramesh Kumar Verma	Research Officer (NCST/ R&M)	Room No. 239, August Kranti Bhawan Bikaji Cama Place New Delhi-110066 Tel.No.26182153	1. National Commission for Scheduled Tribes (NCST) (incl. Admn. & Reports) 2. Governors Report and Conferences 3. Tribal Advisory Council (TACs) 4. Research & Media 5. Tribal Carnival	Shri S. Das Director
18.	Shri Dharam Bir Kumar Singh	Section Officer (Grievances)	Room No. 281, August Kranti Bhawan Bikaji Cama Place New Delhi-110066 Tel. No. 26182428	1. PRIs/PESA 2. Public Grievances 3. RTI Appeals 4. Result Framework Document (RFD)/Citizens Charter 5. Science & Technology in Tribal Development	Shri Gopal Sadhawani Deputy Secretary

ASGHAR ALI, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 3rd January 2017

No. E(O)III-2016/RN/12—Consequent upon his permanent absorption in Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) Shri Rajesh Prasad, an officer of the Indian Railway Service of Engineers (DOB: 22/09/1964, DITS: 22/01/1990), has resigned from Railway service with effect from 30/11/2016 (AN).

R. K. VERMA, Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.2]

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed
by LAZAR
SAGAYA RAJ
Date: 2017.03.04
12:18:54 +05'30'